

Unique Paper Code : 22411202_OC

Name of the Paper : Corporate Laws

Name of the Course : B.Com. (H) - CBCS

Semester : II

Duration : 3 hours

Maximum Marks : 75 Marks

Instructions for Candidates

Attempt any *four* questions. All questions carry equal marks.

1. What is an illegal association of persons? What are its consequences?
Is it correct that a company can be registered with limited liability without the word 'limited' in its name? If yes, which type of company is allowed to do so under the Companies Act, 2013?
X was an officer of ABC Limited. His appointment condition was that he shall not during his service or afterwards entice the customers of this company. He left the company and after sometime formed a company to carry on his own business that enticed the customers of ABC Limited. When ABC Limited came to know about this, it wanted to sue X. You as a legal expert advice ABC Limited.
2. Explain the formation and registration of producer company.
What is forfeiture of shares? Distinguish between forfeiture and surrender of shares.
The promoter of a proposed computer manufacturing company entered into a contract with X for purchase of machinery for the company. After incorporation the company does not want to proceed with the contract. Can the company back out from the contract?
3. What is Memorandum of Association? State the provisions of Companies Act 2013 relating to alteration in object clause of the company.
Can a company purchase its own shares? How and under what conditions?
Mr. A purchased 500 shares from Mr. B of XYZ Limited. Later on he came to know that the prospectus of the company contained some wrong statement. What remedies are available to Mr. A against the company? Will the position be different if not Mr. A but Mr. B to whom the shares were allotted by the company files the suit against the company?
4. Who is a director? State the circumstances under which director shall vacate his office.
"One person cannot form the quorum for a General Meeting of a company". Comment.
What are functions of the 'audit committee' of board of directors of a company?
5. Write a note on 'voting by electronic means'.
Explain the term books of account and discuss the provisions under the Companies Act 2013 regarding the maintenance of books of account.
At an Annual General Meeting of XYZ Limited the shareholders of the company unanimously resolved for the payment of dividend @ 10% to the equity shareholders of the company as the board of directors did not recommend any dividend. Is the unanimous resolution passed by the shareholders stands valid? Discuss.
6. Explain the salient features of the Depositories Act 1996.
What are the consequences of winding up order made by the Tribunal under the Companies Act 2013?
Discuss the provisions relating to constitution of National Company Law Tribunal.

Unique Paper Code : 22411202_OC

Name of the Paper : Corporate Laws

Name of the Course : B.Com. (H) - CBCS

Semester : II

Duration : 3 hours

Maximum Marks : 75 Marks

Instructions for Candidates

Attempt any *four* questions. All questions carry equal marks.

1. व्यक्तियों का अवैध संघ क्या है? इसके परिणाम क्या होते हैं?

क्या यह सही है कि किसी कंपनी को उसके नाम में 'लिमिटेड' शब्द के बिना भी लिमिटेड देयता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? यदि हां, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किस प्रकार की कंपनी को ऐसा करने की अनुमति है?

एक व्यक्ति X, 'ABC लिमिटेड' का अधिकारी था। उसकी नियुक्ति की शर्त थी कि वह अपनी सेवा के दौरान या बाद में इस कंपनी के ग्राहकों को नहीं लुभाएगा। उसने कंपनी छोड़ दी और कुछ समय बाद अपना खुद का व्यवसाय चलाने के लिए एक कंपनी बनाई जिसने 'ABC लिमिटेड' के ग्राहकों को लुभाया। जब ABC लिमिटेड को इस बारे में पता चला, तो वह X पर मुकदमा करना चाहते थे। आप एक कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर ABC लिमिटेड को क्या सलाह देंगे?

2. निर्माता कंपनी के गठन और पंजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें।

शेयरों की जब्ती क्या है? शेयरों की जब्ती और समर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करें।

एक प्रस्तावित कंप्यूटर निर्माण कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी के लिए मशीनरी की खरीद के लिए X के साथ एक अनुबंध किया। निगमन के बाद कंपनी अनुबंध के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती है। क्या कंपनी अनुबंध से पीछे हट सकती है?

3. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी के उद्देश्य खंड में परिवर्तन से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें।

क्या कोई कंपनी अपने शेयर स्वयं खरीद सकती है? कैसे और किन परिस्थितियों में?

मिस्टर A ने XYZ लिमिटेड के मिस्टर B से 500 शेयर खरीदे। बाद में उन्हें पता चला कि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में कुछ गलत बयान दिया गया था। मिस्टर ए के पास कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के कौन से उपाय मौजूद हैं? अगर मिस्टर ए की बजाय मिस्टर B, जिन्हें कंपनी द्वारा शेयर आवंटित किए गए थे, कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं, तो क्या इस मामले की स्थिति अलग हो सकती है?

4. निदेशक (कंपनी के) कौन होता है? उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनके तहत निदेशक अपना पद खाली करता है।

"मात्र एक व्यक्ति किसी कंपनी की सामान्य बैठक के लिए कोरम नहीं बना सकता"। टिप्पणी करें।

किसी कंपनी के निदेशकों के मंडल की 'लेखा परीक्षा समिति' के क्या कार्य होते हैं?

5. 'इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान' पर एक टिप्पणी लिखिए।

'बही-खाते' की व्याख्या करें और बही-खाते के रखरखाव के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों पर चर्चा करें।

XYZ लिमिटेड की एक वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों ने सर्वसम्मति से कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को @ 10% लाभांश के भुगतान के लिए संकल्प लिया क्योंकि निदेशक मंडल ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की थी। तो इस स्थिति में क्या शेयरधारकों द्वारा पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव वैध होगा? स्पष्ट करें।

6. "निक्षेपागार अधिनियम 1996" की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए समापन आदेश के परिणाम क्या हैं? स्पष्ट करें। 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' के गठन से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा करें।

Unique Paper Code : 22411403(OC)
Name of the Paper : Computers Applications in Business (BCH 4. 3)
Name of the Course : **B. Com. (Hons)**
Semester : IV
Time : 3 Hours
Maximum Marks : 25

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
 2. Attempt any **four** questions out of the **six** questions given below.
 3. All questions carry equal marks.
 4. Answers may be written in English or Hindi but the same medium should be followed throughout the paper.
-

1. While purchasing a computer system, both the hardware and software are purchased together. Briefly explain how hardware and software are complementary to each other? Also explain the points of difference between hardware and software.
2. “Operating system acts as a manager of various resources of a computer System”. Do you agree with the statement? Explain your answer while explaining various functions performed by operating system.
3. PQR Ltd. wishes to create a flexible computer network that is capable of adjusting for any sudden temporary demand of additional computers in the network and then reverting back to original scale According to you, which network topology should PQR Ltd. use for setting the computer network? Compare the network topology that you suggest to PQR Ltd. with other commonly used network topologies on the basis of their merits and demerits along with the diagrams for these network topologies.
4. Compare client server computing architecture with peer-to-peer computing architecture. Explain with the help of diagram.
5. Briefly explain different keys in relation with database management system. What is the role of these keys in database systems?
6. According to you which data management system is better, traditional file system or relational database model? What is the role of referential integrity in relational database models of data management?

| | |
|--------------------|---|
| Unique Paper Code | : 22411403(OC) |
| Name of the Paper | : Computers Applications in Business (BCH 4. 3) |
| Name of the Course | : B. Com. (Hons) |
| Semester | : IV |
| Time | : 3 Hours |
| Maximum Marks | : 25 |

Instructions for Candidates

5. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
 6. Attempt any **four** questions out of the **six** questions given below.
 7. All questions carry equal marks.
 8. Answers may be written in English or Hindi but the same medium should be followed throughout the paper.
-

प्रश्न 1 कंप्यूटर सिस्टम खरीदते समय हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों को साथ ही खरीदा जाता है। संक्षिप्त रूप से समझाए कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक-दूसरे के अनुपूरक होते हैं? साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर भी स्पष्ट करें।

प्रश्न 2 "ओपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम के कई रिसोर्सेज के मैनेजर की तरह कार्य करता है"- क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ओपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए अपना उत्तर स्पष्ट करें।

प्रश्न 3 पीक्यूआर लिमिटेड (PQR Ltd.) एक ऐसा लचीला (फ्लेक्सिबल) कंप्यूटर नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो किसी भी समय नेटवर्क में अतिरिक्त कंप्यूटरों की अल्पकालिक माँग पूरी करते हुए एडजस्ट होने की क्षमता रखता हो। और जो पुनः अपने मूल रूप (original scale) में भी लौट सके। आपके अनुसार ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में PQR Ltd. को कौन-सी नेटवर्क टोपोलोजी अपनानी चाहिए? अब आपके द्वारा PQR Ltd. को सुझाई गई नेटवर्क टोपोलोजी की तुलना उन नेटवर्क टोपोलोजी से कीजिए जो आमतौर पर प्रयोग होती हैं। इनके गुण व अवगुण इन नेटवर्क टोपोलोजियों के चित्रों सहित स्पष्ट करें।

प्रश्न 4 क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर (Client server computing architecture) की तुलना पीअर-टू-पीअर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर (Peer-to-Peer computing architecture) से कीजिए। इनका तुलनात्मक अध्ययन सचित्र समझाए।

प्रश्न 5 डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (Database management system) के संदर्भ में उपयोग होने वाली विभिन्न कीज़ (Keys) का संक्षिप्त विवरण करें। डाटाबेस सिस्टम में इन कीज़ (Keys) की क्या भूमिका रहती है स्पष्ट करें।

प्रश्न 6 आपके अनुसार कौन-सी डाटा प्रबंधन प्रणाली बेहतर होती है- पारंपरिक फ़ाईल प्रणाली या रिलेशनल डाटाबेस मॉडल? डाटा प्रबंधन के रिलेशनल डाटाबेस मॉडलों में रेफरेंसियल इंटीग्रिटी की क्या भूमिका रहती है?

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Name of course: | B. Com (Hons) Sem. IV |
| Scheme/Mode of Examinations: | CBCS |
| Name of the Paper: | Entrepreneurship |
| UPC/Subject Code: | 22413405_OC |
| Duration | : 03 Hours |
| Maximum Marks | : 75 Marks |

Attempt any Four Questions. All questions carry equal marks.

Q 1. Find out the applicability of the idiom “from rags to riches” to the founder of PatanjaliYogpeeth Trust, Swami Ramdev. Explain the success journey of Swami Ramdev and the factors contributing towards his success.

Q 2. Prepare a list of family businesses in India. Classify them into third generation, second generation or first generation business. Find out which family businesses in India have incorporated female members and study their succession policy.

Q 3. Elucidate the role of industrial accommodation in entrepreneurial stimulation. Illustrate with suitable examples and steps undertaken by the Government. Also explain the Infrastructure Upgradation adopted under Micro and Small Enterprises – Cluster Development Programme (MSE-CDP).

Q 4. Motivated by the current favourable political environment in favour of entrepreneurship in general, and specific customer environment in favour of demand for organic products, draw a business plan for the same.

Q 5. Imagine yourself to be an entrepreneur who started the business of creating a supply chain for baby corns across Punjab and Maharashtra at all levels in 2010. You have achieved huge success but success brought with it the expectation of growth. There are many options:

- To grow domestically with the same product
- To grow domestically with different new products
- To grow into different foreign markets
- To develop supply chain through wholesalers
- To develop supply chain through retailers

Which option/s would you choose and why.

Q 6. You have a passion for photography. Discuss various resources that will be required for starting the new business venture and how would you mobilise them.

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Name of course: | B. Com (Hons) Sem. IV |
| Scheme/Mode of Examinations: | CBCS |
| Name of the Paper: | Entrepreneurship |
| UPC/Subject Code: | 22413405_OC |
| Duration | : 03 Hours |
| Maximum Marks | : 75 Marks |

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

प्रश्न 1 "रंक से राजा" - इस कथन की सार्थकता पतंजलियोगपीठ ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी रामदेव के संदर्भ में स्पष्ट करें। स्वामी रामदेव के सफलता के शिखर तक पहुँचने के सफ़र का वर्णन करते हुए उनकी सफलता में महत्वपूर्ण रहें कुछ घटकों की विवेचना करें।

प्रश्न 2 भारत में पारिवारिक व्यवसायों की एक सूची तैयार करें। इनको तीसरी, दूसरी तथा पहली पीढ़ी में वर्गीकृत करें। पता लगाएं कि भारत के किन-किन पारिवारिक व्यवसायों में महिला सदस्यों को शामिल किया गया और इनकी उत्तराधिकार-नीति की समीक्षा करें।

प्रश्न 3 उद्यमी-प्रोत्साहन में औद्योगिक-आवासों की भूमिका का उदाहरण सहित अध्ययन करें। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की उदाहरण सहित चर्चा करें। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) के तहत अपनाए गए आधारभूत संरचना सुविधाओं में विकास को स्पष्ट करें।

प्रश्न 4 वर्तमान में उद्योग के प्रति अनुकूल राजनीतिक वातावरण एवं जैविक उत्पादों के लिए विशेष उपभोक्ता माँग उत्पन्न होने पर प्रोत्साहित होकर एक व्यवसाय योजना बनाइए।

प्रश्न 5 कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यमी हैं जिसने 2010 में पंजाब और महाराष्ट्र में सभी स्तरों पर बेबी-कॉर्नस की आपूर्ति के लिए सप्लाई-चैन बनाने का व्यवसाय शुरू किया। आपने काफी सफलता पाई परंतु सफलता के साथ ही वृद्धि की भी नई उम्मीदें जागीं। अब आपके पास कई रास्ते हैं-

- उसी उत्पाद (Product) के साथ घरेलू स्तर पर वृद्धि करना
- कुछ अन्य नए उत्पादों के साथ घरेलू स्तर पर विकास करना
- नए विदेशी बाजारों में पहुँच बढ़ाना

- थोक-विक्रेताओं के साथ जुड़कर सप्लाई-चैन बढ़ाना
- फुटकर-विक्रेताओं संग सप्लाई-चेन बढ़ाना

आप कौन-से विकल्प चुनेंगे और क्यों?

प्रश्न 6 आपको तस्वीर खींचने में विशेष रुचि है। चर्चा करें कि कैसे और किन स्रोतों के माध्यम से आप एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आप उन्हें कैसे जुटाएंगे?



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>

Unique Paper Code: **22411601**

Name of the Paper: **Auditing and Corporate Governance**

Name of the Course: **B.Com (Hons.), CBCS**

Semester: **VI**

Duration: **3 hours**

Maximum Marks: **75 Marks**

Instructions for Candidates

Note: Answers may be written *either* in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

Attempt any *four* questions.

All questions carry equal marks.

Q1. "Auditing does not guarantee that accounts are true and fair in all respects". Elucidate.

Q2. In what way do you think the recent regulations in the form of corporate funding of political parties and class action will facilitate shareholder activism.

Q3. Suggest a structure of board of directors and board committees of a large-listed company as per the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.

Q4. 'The management deceptively led all stakeholders to believe that the company was being run superbly successfully while in reality it was being led to bankruptcy'. With reference to this statement, write about the relevant corporate scam(s).

Q5. 'It always pays to be an ethical organization'. Justify this statement by highlighting benefits of an ethical organization.

Q6. Give an account of CSR initiatives taken by any two Indian companies and state the provisions of the Indian Companies Act, 2013 on CSR.

Unique Paper Code: **22411601**

Name of the Paper: **Auditing and Corporate Governance**

Name of the Course: **B.Com (Hons.), CBCS**

Semester: **VI**

Duration: **3 hours**

Maximum Marks: **75 Marks**

Instructions for Candidates

Note: Answers may be written *either* in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

Attempt any four questions.

All questions carry equal marks.

प्र.1. "लेखा परीक्षा इस बात की गारंटी नहीं देती है कि लेखा हर तरह से सही और निष्पक्ष हैं"। स्पष्ट करें।

प्र.2. आप किस तरह से सोचते हैं कि राजनीतिक दलों के कॉर्पोरेट फंडिंग और सामूहिक कार्रवाई के रूप में हाल के विनियम शेयरधारक सक्रियता को सुविधाजनक बनाएंगे।

प्र.3. सेबी(SEBI) के (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के अनुसार एक बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की संरचना का सुझाव दें।

प्र.4. प्रबंधन ने धोखे से सभी हितधारकों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया कि कंपनी को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा था जबकि वास्तव में यह दिवालियापन की ओर बढ़ रही थी। इस कथन के संदर्भ में संबंधित कॉर्पोरेट घोटालों के बारे में लिखें।

प्र.5. एक नैतिक संगठन होना हमेशा लाभान्वित करता है। एक नैतिक संगठन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए।

प्र.6. किन्हीं दो भारतीय कंपनियों द्वारा की गई सीएसआर(CSR) पहलों का विवरण दें और सीएसआर(CSR) पर भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लेख करें।

Unique Paper Code : 22417601

Name of the Paper : Fundamentals of Investment

Name of the Course : B.Com. (Hons.)-CBCS

Semester : VI

Duration : 3 hours

Maximum Marks : 75 Marks Instructions for Candidates

Attempt any four questions. All questions carry equal marks.

Q1. Mr. Sahir has approached you for professional advice on investment. He has Rs. 50 Lakhs which he wishes to investment in stock market in the name of his wife on the birthday falling due the next week. He is by nature risk averse, he also tells you that he had wondered investing in NGC Company itself be a good idea as it is quite profitable. While you agree with him on choice of NGC Company, you suggest that by way of risk reduction, it would be prudent to invest in RPL Company, an equally reputed oil marketing company. Mr. Sahir desires to know from you specific answers to the following:

- a) What would be the likely return and risk of the two stocks?
- b) Out of the above two alternatives which would be least risky? Which would you recommend and why?
- c) Also calculate coefficient of correlation between two stocks.

You have the following forecast of the future returns on the two stocks:

| Condition | Probability | RPL Co. (%) | NGC Co. (%) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Recession | 0.3 | 10 | 6 |
| Average | 0.4 | 12 | 12 |
| Good | 0.2 | 20 | 20 |
| Boom | 0.1 | 22 | 24 |

प्र.1. श्री साहिर निवेश करना चाहते हैं और आपसे व्यवसायी सलाह के लिए संपर्क किया है। उनके पास 50 लाख रुपये हैं जो वह अगले सप्ताह में पड़ने वाले अपनी पत्नी के जन्मदिन पर अपनी पत्नी के नाम पर शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। उन्हें जोखिम से परहेज है और वह स्वभाविक रूप से जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, वह आपको यह भी बताते हैं कि उन्होंने वह एनजीसी कंपनी में निवेश करने के लिए सोचा था और यह अपने आप में एक अच्छा विचार है क्योंकि यह काफी लाभदायक है। यदि आप एनजीसी कंपनी की पसंद पर उनसे सहमत हैं, तो आप सुझाव देते हैं कि एक समान रूप से प्रतिष्ठित तेल विपणन कंपनी

आरपीएल कंपनी में निवेश करना समझदारी होगी और इसमें जोखिम भी काफी कम है। श्री साहिर आपसे निम्नलिखित के विशिष्ट उत्तरों को जानना चाहते हैं:

कदो शेयरों की संभावना वापसी और जोखिम क्या होगा (?)

खउपरोक्त दो विकल्पों के बारे में बताइये जो कम जोखिम भरा होगा (?) और कौनसा कम से कम जोखिम - भरा होगा? आप किसकी सिफारिश करेंगे और क्यों?

गदो शेयरों के बीच सहसंबंध के गुणांक की गणना भी करें। (

आपके पास दो शेयरों पर भविष्य के रिटर्न का निम्नलिखित पूर्वानुमान है:

| अवस्थिति आरपी | संभावना | आरपीएल (प्रतिशत) | कंपनी नजीसी (प्रतिशत) | कंपनी |
|---------------|---------|---------------------|-----------------------------|-------|
| मंदी | 0.3 | 10 | 6 | |
| औसत | 0.4 | 12 | 12 | |
| अच्छा | 0.2 | 20 | 20 | |
| बूम | 0.1 | 22 | 24 | |

Q2. Explain credit rating. Do you think that high credit rating is a recommendation to buy the bond?

Mr. Mahesh is considering purchase of a bond which is currently quoted at Rs. 910. The bond has a face value of Rs. 1000. It carries coupon rate of 11% and has 5 years to maturity. Currently, the interest income is subject to 30% rate of tax and capital gain is subject to 10% tax rate. Advice, Should Mr. Mahesh buy this bond if his required rate of return is 10%. Also calculate YTM at current market price.

| Year | Kharif Pulses | Rabi Pulses | Total |
|---------|---------------|-------------|----------|
| 2020-21 | 10.60 MT | 15.00 MT | 25.60 MT |
| 2019-20 | 10.10 MT | 16.20 MT | 26.30 MT |
| 2018-19 | 9.85 MT | 16.10 MT | 25.95 MT |

प्र.2. क्रेडिट रेटिंग को समझाते हुए व्याख्या करें। क्या आपको लगता है कि बांड खरीदने के लिए उच्च क्रेडिट रेटिंग एक सिफारिश है?

श्री महेश एक बांड खरीदने पर विचार कर रहे हैं जिसका अंकित मूल्य वर्तमान में 910 रुपये है। बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपए है। यह 11 प्रतिशत की कूपन दर किया जाता है और बांड की परिपक्वता के लिए 5 साल है। वर्तमान में, ब्याज आय कर की 30 प्रतिशत दर के अधीन है और पूंजीगत लाभ 10 प्रतिशत कर दर के अधीन है। सलाह दीजिए, क्या श्री महेश को यह बांड खरीदना चाहिए अगर उनके अपेक्षित रिटर्न की) दर (आवश्यक 10 प्रतिशत है। वर्तमान बाजार मूल्य पर वाईटीएम की गणना करें। (लज्ज)

Q.3 Explain how Candlestick Chart is used by technical analysts to predict future behavior of prices.

The dividend on equity shares of ABC Co. is expected to grow at the rate of 12% for first 5 years and 10% thereafter forever. Investors have just received an annual dividend of Rs.7 per share. The appropriate discount rate representing equity shareholders expectation is 14%. Find out the value of the equity share. If the current market price of the share is Rs. 220, Should investor buy the share? Why?

प्र.3. समझाएं कि कीमतों के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए तकनीकी विश्लेषकों द्वारा कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग कैसे किया जाता है।

एबीसी कंपनी के इक्विटी शेयरों पर लाभांश पहले 5 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत और उसके बाद हमेशा के लिए 10 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। निवेशकों को अभी 7 रुपये प्रति शेयर का वार्षिक लाभांश मिला है। इक्विटी शेयरधारकों की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करने वाली उचित छूट दर 14 प्रतिशत है। इक्विटी शेयर की वैल्यू का पता लगाएं। अगर शेयर का मौजूदा मार्केट प्राइस 220 रुपये है तो क्या निवेशक को शेयर खरीदना चाहिए? और क्यों?

Q4. Mr. Akshay has Rs. 5 lakhs which he wants to invest in equity shares of Company A and Company B. The following are the expected return and risk of shares of company A and company B

| | Expected Returns | Standard Deviation |
|-----------|------------------|--------------------|
| Company A | 15% | 10% |
| Company B | 12% | 6% |

He finds that the correlation coefficient between the returns of Co. A and Co. B is -1.

Mr. Akshay is considering the following portfolios

- (i) 100% in company B
- (ii) 10% in company A and 90% in company B
- (iii) 50% in company A and 50% in company B
- (iv) 100% in company A

Advise him which portfolio is good if wants to (i) minimize risk (ii) maximize return (iii) risk return trade-off.

Explain the role of diversification in portfolio.

प्र.4. अक्षय के पास 5 लाख रुपए हैं जो वह कंपनी ए और कंपनी बी के इक्विटी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं। कंपनी ए और कंपनी बी के शेयरों की अपेक्षित वापसी - और जोखिम निम्नलिखित हैं (रिटर्न)

| | अपेक्षित रिटर्न | मानक विचलन |
|----------|-----------------|------------|
| कंपनी ए | 15 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| कंपनी बी | 12 प्रतिशत | 6 प्रतिशत |

उन्हें मालूम है कि कंपनी ए और बी के रिटर्न के बीच सहसंबंध गुणांक -1 है।

श्री अक्षय निम्नलिखित निवेश सूची पर विचार कर रहे हैं

- (1) कंपनी बी में 100 प्रतिशत
- (2) कंपनी ए में 10 प्रतिशत और कंपनी बी में 90 प्रतिशत
- (3) कंपनी ए में 50 प्रतिशत और कंपनी बी में 50 प्रतिशत
- (4) कंपनी ए में 100 प्रतिशत

उसे सलाह दें कि कौन - अच्छी है अगर चाहते हैं (पोर्टफोलियो) सी निवेश सूची-1) जोखिम को कम करना)2) अधिकतम रिटर्न)3) रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ।

निवेश सूची की भूमिका समझाएं। में विविधीकरण (पोर्टफोलियो)

Q5 Explain Feasible, efficient and optimal portfolio.

You are evaluating various investment opportunities currently available and details of five different well-diversified portfolios are as under:

| Portfolios | Expected Return (%) | Standard Deviation (%) |
|------------|---------------------|------------------------|
| Q | 7.8 | 10.5 |
| R | 18.6 | 14 |

| | | |
|---|------|------|
| S | 4.6 | 5 |
| T | 21.7 | 18.5 |
| U | 16.2 | 7.5 |

It is further given that the risk free rate of return is 6% and unlimited borrowing and lending is possible at this rate. The return and risk of market portfolio is 15% and 10%. Comment on the efficiency of the portfolios. Also calculate the reward to variability ratio. Draw a rough sketch of CML to represent these portfolios.

प्र.5. व्यवहार्य, कुशल और इष्टतम निवेश सूची की व्याख्या करें। (पोर्टफोलियो)

आप वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न निवेश अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं और पांच अलगअलग अच्छी - तरह से विविध पोर्टफोलियो के विवरण निम्नानुसार हैं:

| पोर्टफोलियो | अपेक्षित वापसी (%) | मानक विचलन (%) |
|-------------|--------------------|----------------|
| क्यू | 7.8 | 10.5 |
| आर | 18.6 | 14 |
| एस | 4.6 | 5 |
| टी | 21.7 | 18.5 |
| यू | 16.2 | 7.5 |

यह आगे भी दिया गया है कि रिटर्न की जोखिम मुक्त दर 6 प्रतिशत है और इस दर पर असीमित उधार लेना और ऋण देना संभव है। बाजार पोर्टफोलियो का रिटर्न और जोखिम 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है। पोर्टफोलियो की दक्षता पर अपनी टिप्पणी दें। साथ ही परिवर्तनशीलता अनुपात के लिए इनाम की गणना करें। इन निवेश सूचियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीएमएल का एक रफ चित्र बनाइये। (स्केच)

6. What do you mean by futures? Explain the factors determining price of future contracts.

The equity shares of P Ltd. are being sold for Rs. 400. A 3-months call option is available for a premium of Rs. 20 per share and a 3 months put option is available for Rs. 15 per share. Find out net pay-off of put option holder and call option holder given that the strike price in both the cases is Rs. 430 and the share price on exercise day is Rs.390, Rs.420 or Rs. 460. Also find out break-even point for both call option and put option.

प्र.6. भविष्य से आपका क्या मतलब है (फ्यूचर)? भविष्य के अनुबंधों की कीमत निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।

पी लिमिटेड के इक्विटी शेयर 400 रुपये में बेचे जा रहे हैं। 3 महीने का कॉल ऑप्शन 20 रुपये प्रति शेयर प्रीमियम के लिए उपलब्ध है और 3 महीने का पुट ऑप्शन 15 रुपये प्रति शेयर के लिए उपलब्ध है। पुट ऑप्शन होल्डर और कॉल ऑप्शन होल्डर का नेट पेऑफ ज्ञात कीजिए-, क्योंकि दोनों मामलों में स्ट्राइक प्राइस 430 रुपये और प्रयोग दिन)एक्सरसाइज डे पर शेयर प्राइस (390 रुपये, 420 रुपये या 460 रुपये है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए ब्रेकइव पॉइंट भी हूँगे।-

OBE CBCS Set B

Unique Paper Code : 22417604
Name of the Paper : International Business
Name of the Course : B Com (Hons)
Semester : VI

Duration : 3 Hours
Maximum Marks : 75 marks

Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks

1. Indian MNC Airtel, purchased Zain Telecommunications in South Africa to enter the African market. Identify the mode of entry used by Airtel and explain its features and suitability. Compare this with various other entry mode options available to MNCs like Airtel to enter foreign markets and their relevance and suitability.
2. The US MNC McDonald's entered India in 1991, as the new liberalization policy created an enabling economic environment which was supported by a growing middle-class market. Over the years McDonalds has faced numerous challenges and made several product adaptations to survive in India's complex and multidimensional business environment. Discuss and explain.
3. "Regional economic integration is a symbol of modern globalization but is challenged by increasing nationalism". Explain the different stages and impact of regional economic integration, with suitable contemporary examples.
4. The Balance of Payments Account is a record of the country's international transactions. What are its components? Is it true that the Balance of Payments account is always in equilibrium? What is the role of export promotion and import substituting policies in the Balance of Payments of a country.
5. "Countries use tariff and non tariff barriers to turn the terms of trade in their favour". Explain the rationale and differential impact of using tariff and non tariff barriers in international trade. Use two examples of different kinds of barriers to illustrate your explanations.
6. Write short notes on any two :
 - a. IMF as a regulator of global finance
 - b. Special Economic Zones
 - c. Foreign Exchange risk and exposure
 - d. Forms of international trade payment.
 - e. Geocentric orientation

OBE CBCS Set B

Unique Paper Code : 22417604
Name of the Paper : International Business
Name of the Course : B Com (Hons)
Semester : VI

Duration : 3 Hours
Maximum Marks : 75 marks

Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks

1. भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी एयरटेल ने अफ्रीकी बाजार में प्रवेश करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में Zain telecommunications खरीदा। एयरटेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश के तरीके की पहचान कीजिए और इसकी विशेषताओं और उपयुक्तता की व्याख्या कीजिए। इसकी तुलना विदेशी बाजार में प्रवेश करने के लिए एयरटेल जैसे एमएनसी के लिए उपलब्ध विभिन्न अन्य प्रवेश मोड विकल्पों और उनकी प्रासंगिकता और उपयुक्तता बताइए।
2. यूएस एमएनसी मैकडॉनल्ड्स ने 1991, में नई उदारीकरण नीति के रूप में भारत में प्रवेश किया और आर्थिक वातावरण को सक्षम किया, जिसे वर्षों से बढ़ते मध्यम वर्ग के बाजार द्वारा समर्थित किया गया था। मैकडॉनल्ड्स ने कई चुनौतियों का सामना किया है और भारत के जटिल और बहुआयामी कारोबारी माहौल में बने रहने के लिए उत्पाद अनुकूलन किए हैं। चर्चा करें और समझाएं।
3. "क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण आधुनिक वैश्वीकरण का प्रतीक है लेकिन बढ़ता राष्ट्रवाद इसके लिए चुनौती है"। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के विभिन्न चरणों और प्रभाव को उपयुक्त समकालीन उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें।
4. भुगतान संतुलन खाता देश के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का एक रिकॉर्ड है। इसके घटक क्या-क्या हैं? यह सच है कि भुगतान संतुलन खाते का संतुलन हमेशा संतुलन में रहता है? किसी देश के भुगतान संतुलन में निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन नीतियों की क्या भूमिका है ?

5. “देश व्यापार की शर्तों को अपने पक्ष में करने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का उपयोग करते हैं”। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का उपयोग करने के तर्कसंगत और विशेष प्रभाव की व्याख्या करें। व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं के दो उदाहरणों का उपयोग करें।

6. किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

- a. वैश्विक वित्त के नियामक के रूप में आईएमएफ
- b. विशेष आर्थिक क्षेत्र
- c. विदेशी विनिमय जोखिम और संपर्क
- d. अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के रूप
- e. भू-केंद्रित लगाव (Geocentric orientation)

OBE B Com CBCS

Set B

Unique Paper Code : 52417606

Name of the Paper : International Business

Name of the Course : B Com

Semester : VI

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75 marks

Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks

1. ***GLOCALISATION*** is a form of globalization, visible as a business strategy used by several leading MNCs which adapt their global products and brands according to the local business environment. In this context discuss the characteristics, drivers and impact of globalization on the world. Use suitable contemporary examples to illustrate your answer.
2. Indian MNC Airtel purchased Zain Telecom in South Africa to enter and expand into the African market, and expects to find a complex, diverse and multidimensional business environment in that country. Discuss the complexities and multidimensional features of the international business environment which are a challenge to MNCs like Airtel. Use contemporary and relevant examples to illustrate your answer.
3. “The European Union is a symbol of successful regional economic integration”. Do you agree? Discuss and explain the different stages of integration in this context. Also explain the impact of regional economic integration on the global economy.
4. What is the difference between tariff and non tariff barriers to trade between nations? Discuss the rationale for the use of these trade restrictions by different countries and use suitable examples to explain their impact on global trade.
5. Discuss the evolution and growth of the international monetary system from the time of the gold standard till the present. Clearly bring out the distinctive features of contemporary exchange rate system in the contemporary global context.
6. a. What is e- commerce? Discuss the factors responsible for the growth of global e-commerce in the last few decades.

b. What are the key environmental issues in the context of international business? Discuss the major global initiatives for environmental protection.

Unique Paper Code : 52417606

Name of the Paper : International Business

Name of the Course : B Com

Semester : VI

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75 marks

Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks

1. ग्लोबलाइज़ेशन भूमण्डलीकरण का एक रूप है, जो कई प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक रणनीति के रूप में दिखाई देता है और जो स्थानीय व्यावसायिक वातावरण के अनुसार अपने वैश्विक उत्पादों और ब्रांडों को अनुकूलित करते हैं। इस संदर्भ में दुनिया पर वैश्वीकरण की विशेषताओं, ड्राइवर्स और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। अपने उत्तर को समझाने के लिए उपयुक्त समकालीन उदाहरणों का उपयोग करें।
 2. भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनी एयरटेल ने अफ्रीकी बाजार में प्रवेश करने और विस्तार करने के (एमएनसी) लिए दक्षिण अफ्रीका में जैन टेलीकॉम खरीदा, और उस देश में एक जटिल, विविध और बहुआयामी कारोबारी माहौल खोजने की उम्मीद करती है। अंतरराष्ट्रीय कारोबारी माहौल की जटिलताओं और बहुआयामी विशेषताओं पर चर्चा करें जो एयरटेल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चुनौती हैं। अपने उत्तर को समझाने के लिए समकालीन और प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग करें।
 3. “यूरोपीय संघ सफल क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है”। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस संदर्भ में एकीकरण के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें, समझाएं और व्याख्या करें। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें।
 4. राष्ट्रों के बीच व्यापार के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं के बीच क्या अंतर होता है? विभिन्न देशों द्वारा इन व्यापार प्रतिबंधों के उपयोग के औचित्य पर चर्चा करें और वैश्विक व्यापार पर उनके प्रभाव को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करें।
 5. स्वर्णकाल के समय से लेकर वर्तमान तक अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के विकास और विकास (मानक) पर चर्चा करें। समकालीन वैश्विक संदर्भ में समकालीन विनिमय दर प्रणाली की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट रूप से सामने लाएं।
 6. कर्कॉमर्स से आपका क्या अभिप्राय है-ई .? पिछले कुछ दशकों में वैश्विक ईकॉमर्स के विकास के लिए - जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें।
- बअंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों से आपका क्या आशय है .? पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख वैश्विक पहलों पर चर्चा करें।



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>